

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् में हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ

हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् में दिनांक 01 सितंबर 2021 को हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। श्री अरुण सिंह रावत, महानिदेशक भा.वा.अ.शि.प. ने हिंदी पखवाड़ा के कार्यक्रम का समारंभ किया जिसमें भा.वा.अ.शि.प. के समस्त अधिकारियों, वैज्ञानिकों, एवं कर्मचारियों ने सजीव प्रसारण के माध्यम से भाग लिया। डॉ. गीता जोशी, सहायक महानिदेशक, मीडिया एवं विस्तार प्रभाग ने हिंदी पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर महानिदेशक महोदय एवं सभी भौतिक रूप से उपस्थित अधिकारियों एवं सजीव प्रसारण देख रहे कार्मिकों का स्वागत किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अरूण सिंह रावत ने गत वर्ष राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा की एवं राजभाषा हिंदी के निरंतर प्रयोग हेतु प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने हर्ष व्यक्त किया कि हमने विगत वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है किंतु हमें यहां रूकना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग बोलते समय सामान्य तौर पर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं किंतु लिखते समय अंग्रेजी का प्रयोग करने लगते हैं। यह एक विरोधाभास है जो दर्शाता है कि काम करने की पूर्व स्थापित सरलता को छोड़कर हिंदी में सहजता से लिखने के लिए संकल्प की कमी है। हमें हिंदी को सहजतापूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि न सिर्फ हिंदी में कार्य करना आवश्यक है बल्कि उसे समय पर भी करना है।

मुख्य अतिथि ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी में रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़े के दौरान कुछ नई प्रतियोगिताएं कराने का सुझाव दिया। इन प्रतियोगिताओं से अधिकारियों एवं कर्मचारियों में न सिर्फ हिंदी में कार्य करने का उत्साहवर्धन होगा बल्कि उनके हिंदी के ज्ञान के आयामों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने अपने संबोधन में सभी कार्मिकों से पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

इस अवसर पर श्री एस.डी. शर्मा, उप महानिदेशक, अनुसंधान निदेशालय, श्री राकेश कुमार डोगरा, उप महानिदेशक, प्रशासन निदेशालय, श्रीमती कंचन देवी, उप महानिदेशक, शिक्षा निदेशालय, श्री अनुराग भारद्वाज, निदेशक (अंतरराष्ट्रीय सहयोग), डॉ. विमल कोठियाल, सहायक महानिदेशक, अनुसंधान योजना, श्री राजकुमार बाजपेयी, सहायक महानिदेशक, प्रशासन निदेशालय, श्री दीपक मिश्रा, सचिव एवं डॉ. गीता जोशी, सहायक महानिदेशक, मीडिया एवं विस्तार प्रभाग और डॉ. ए.एन. सिंह, सहायक महानिदेशक, पर्यावरण प्रबंधन उपस्थित रहे। भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में हिंदी पखवाड़े का कार्यक्रम 01.09.2021 से 14.09.2021 तक चलेगा। हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह हिंदी दिवस (14.09.2021) के अवसर पर आयोजित किया जाएगा।



